

# श्री बजरंग बाण का पाठ

दोहा :

निश्चय प्रेम प्रतीति ते, बिनय करै सनमान।  
तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करै हनुमान॥

चौपाई :

जय हनुमंत संत हितकारी। सुन लीजै प्रभु अरज हमारी॥  
जन के काज बिलंब न कीजै। आतुर दौरि महा सुख दीजै॥  
जैसे कूदि सिंधु महिपारा। सुरसा बदन पैठि बिस्तारा॥  
आगे जाय लंकिनी रोका। मारेहु लात गई सुरलोका॥  
जाय बिभीषन को सुख दीन्हा। सीता निरखि परमपद लीन्हा॥  
बाग उजारि सिंधु महँ बोरा। अति आतुर जमकातर तोरा॥  
अक्षय कुमार मारि संहारा। लूम लपेटि लंक को जारा॥  
लाह समान लंक जरि गई। जय जय धुनि सुरपुर नभ भई॥  
अब बिलंब केहि कारन स्वामी। कृपा करहु उर अंतरयामी॥  
जय जय लखन प्रान के दाता। आतुर ह्वै दुख करहु निपाता॥  
जै हनुमान जयति बल-सागर। सुर-समूह-समरथ भट-नागर॥  
ॐ हनु हनु हनु हनुमंत हठीले। बैरिहि मारु बज्र की कीले॥  
ॐ ह्रीं ह्रीं ह्रीं हनुमंत कपीसा। ॐ हुं हुं हुं हनु अरि उर सीसा॥  
जय अंजनि कुमार बलवंता। शंकरसुवन बीर हनुमंता॥  
बदन कराल काल-कुल-घालक। राम सहाय सदा प्रतिपालक॥  
भूत, प्रेत, पिसाच निसाचर। अग्नि बेताल काल मारी मर॥  
इन्हें मारु, तोहि सपथ राम की। राखु नाथ मरजाद नाम की॥  
सत्य होहु हरि सपथ पाइ कै। राम दूत धरु मारु धाइ कै॥  
जय जय जय हनुमंत अगाधा। दुख पावत जन केहि अपराधा॥  
पूजा जप तप नेम अचारा। नहिं जानत कछु दास तुम्हारा॥  
बन उपबन मग गिरि गृह माहीं। तुम्हरे बल हौं डरपत नाहीं॥  
जनकसुता हरि दास कहावौ। ताकी सपथ बिलंब न लावौ॥  
जै जै जै धुनि होत अकासा। सुमिरत होय दुसह दुख नासा॥  
चरन पकरि, कर जोरि मनावौं। यहि औसर अब केहि गोहरावौं॥  
उठु, उठु, चलु, तोहि राम दुहाई। पायँ परौं, कर जोरि मनाई॥  
ॐ चं चं चं चं चंचल चलता। ॐ हनु हनु हनु हनु हनुमंता॥  
ॐ हं हं हाँक देत कपि चंचल। ॐ स स सहमि पराने खल-दल॥  
अपने जन को तुरत उबारौ। सुमिरत होय आनंद हमारौ॥  
यह बजरंग-बाण जेहि मारै। ताहि कहौ फिरि कवन उबारै॥  
पाठ करै बजरंग-बाण की। हनुमत रक्षा करै प्रान की॥  
यह बजरंग बाण जो जापै। तासों भूत-प्रेत सब कापै॥  
धूप देय जो जपै हमेसा। ताके तन नहिं रहै कलेसा॥

दोहा :

उर प्रतीति दृढ़, सरन ह्वै, पाठ करै धरि ध्यान।  
बाधा सब हर, करै सब काम सफल हनुमान॥



**eAstroHelp**

Your Astrology Helpline